

आईसीएआर-एनसीआईपीएम की पांच वर्षीय समीक्षा टीम द्वारा कपास आई पी एम खेतों का दौरा

ग्राम निहाल खेड़ा जिला फाजिल्का में दिनांक 5 नवंबर 2019 को आईसीएआर एनसीआईपीएम नई दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे कपास की फसल में आईपीएम परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के खेतों का दौरा समीक्षा टीम द्वारा किया गया तथा उसके पश्चात किसानों के साथ कृषक वैज्ञानिक संवाद का आयोजन भी किया गया। इस दौरान टीम के माननीय अध्यक्ष डॉ एसएन पुरी, पूर्व कुलपति, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल तथा सदस्य डॉ जी टी गूजर, पूर्व विभागाध्यक्ष, कीट विज्ञान संभाग, आईएआरआई पूसा, नई दिल्ली, डॉ एस एन सुशील -पूर्व प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर, भारत सरकार ने आईपीएम किसानों के साथ परस्पर बातचीत की तथा गांव में चल रहे आईपीएम कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की, सभी किसानों ने अपने अनुभव शेयर किए। वैज्ञानिकों द्वारा किसानों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। इससे पूर्व निहाल खेड़ा गांव के सरपंच श्री राधा कृष्ण एवं आईपीएम किसानों श्री विनोद जी, राम प्रवीण, पुनीत, किशन आदि द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। डॉ पुरी ने इस आईपीएम वैधीकरण कार्यक्रम जोकि पिछले 4 वर्ष से गांव में चल रहा है को आगे 1 वर्ष और चलाने का सुझाव दिया तथा एनसीआईपीएम के निदेशक डॉ हंसराज सरदाना ने इसे आगे जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त की। आईपीएम किसानों ने बताया कि आईपीएम अपनाने से कपास में सफेद मक्खी व अन्य कीटों का नियंत्रण अच्छे से हो सका तथा इसके अलावा कीटनाशकों के उपयोग में भारी कमी आई एवं लागत में कमी के साथ-साथ उपज में भी वृद्धि हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन एनसीआईपीएम की कपास टीम डॉ अजंता बिराह, डॉ अनूप कुमार, डॉ मुकेश कुमार खोखर द्वारा ग्राम निहाल खेड़ा के किसानों के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉ मुकेश सहगल, सचिव, पांच वर्षीय समीक्षा टीम द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।



